



कपड़ों में जिह्वी दाग हटाने टिप्प

सिके का प्रयोग अचार चटनी और खाने की कई चीजों में तो आप करते ही होंगे लेकिन रसाई से हटकर भी इसके तमाम पथरदे हैं। यहां हम आपको सिरके के कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले इस्तेमाल बता रहे हैं जो घर संवारने और खूबसूरती निखारने में आपकी खूब मदद करेंगे।

जिह्वी दाग हटाने में अकसर हमारे कपड़े परीने के दाग की वजह से खराब हो जाते हैं। हल्के रंग के कपड़ों के साथ ऐसा खराबपौर पर होता है। कपड़े धोने से पहले इन दागों पर स्त्रे करने वालों बोतल से सिरका छिड़के। दाग आसानी से गायब हो जायेंगे गुलदस्ते में फूटों को ज्यादा देर तक तराताजा रखना मुश्किल होता है। इनको देर तक प्रश्न बनाए रखने में सिरका काम आएगा। फूलदान के पानी में एक चम्मच सफेद सिरका डाल देंगे एतों पूरे देर तक ताजे रहेंगे किंवद्ध घरों में अंडा नियमित तौर पर प्रयोग होता है। इनको उबालते समय गर्म पानी में थोड़ा सिरका मिला दिया जाए तो अंडे में फैक्र नहीं आता है और इस तरह अंडे को सफेद हिस्सा फेलता भी नहीं है। ज्यादा आपको पता है कि चींटियों को सिरका अच्छा नहीं लगता। अगर घर में चींटियां हैं तो कृष्ण के बाबाकर मात्रा में मिलाकर छिड़के। कुछ ही देर में चींटियां आपका घर खाली करके भग जाएंगी। पानी और सफेद सिरके का घोल प्लाय प्रिंज और रसाई की अलतमारियों को सफाकरें में बहुत मददगार होता है। हालांकि इसे संग्रहमय या ग्रेनाइट के पर्फेर में इस्तेमाल न करें। इसके अलावा प्रिंज से खराब खाने की बदूबू होने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है क्या आपको पता है कि एक मग पानी में आधा चम्मच सिरका मिलाकर बालों पर डाला जाए तो बाल एकदम खिल खिले और चम्मच हो जाते हैं। इस उपयोग से हालांकि थोड़ी देर के लिए आपके बालों से महक आ सकती है। लेकिन बाद में सिरका नतीजा देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। सफेद सिरके एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। वह एक्सी दूर करने में बहुत कामयाद होता है। यह त्वचा के पीलांच बैलेंस को भी सुधारता है। हां इस ट्रिक को आजमाने से पहले सिरके के साथ इसकी बाबाकर मात्रा में पानी मिला लें। त्वचा को किसी सौम्य फेसवारा से साफ करें और साफ तालैं से पोंछ लें। कॉटन से सिरके व पानी का मिक्सर्वर एवं वाली जगह पर लगाएं और पांच मिनट बाद साफ पानी से धो दें। ऑपेल प्री म्याइस्क्रियाइजर फेस पर लगा ले। कुछ दिनों तक यह उपचार लगातार करें। त्वचा बहेद संवेदनशील है। कभी कभार निकलने वाले पिंपल्स पर भी इसे न लगाएं।

बालों को लंबा रखने के कुछ ही आसान तरीके

धने लंबे बाल हर किसी को पसंद नहीं हैं, लेकिन अपने बालों को ताजा और लंबा रखने के कुछ ही आसान तरीके हैं। एलो वेरा

जैल : अगर आपके घर में एलो वेरा जेल नहीं है, तो एलो वेरा जेल बाजार से खरीदें। एलोवेरा जेल को स्कैलप पर 10-15 मिनट के लिए लगाएं। फिर अपने बालों को ठंडे पानी से धो लें। एलोवेरा बालों के रोम को मजबूत करता है और बालों के विकास में मदद करता है।

अंडे : पतले बालों को धना करने के लिए मेथी का प्रयोग जरूरी है। एक रात पहले मेथी को पानी में भिगो दें, अगले दिन भीगे हुए मेथी दानों को छान लें, आधा कप साफ पानी डालकर मिला लें। पेस्ट को बालों की जड़ों में 30 मिनट के लिए लगाएं। फिर अपने बालों को शैम्पू से धो लें। आप शैम्पू करने से पहले नियमित रूप से नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं।

मेहंदी : आप अपने बालों की देखभाल के लिए हफ्ते में एक बार मेहंदी का इस्तेमाल कर सकती हैं। मेहंदी बालों को अंदर से मजबूत कर नए बाल उगाने में मदद करती है। सरसों के तेल में एटी-फॉगल गुण होते हैं और यह बालों की रुसी और खुजली को दूर करता है। सरसों का तेल बालों को झड़ने से रोकता है साथ ही अगर बालों की सुरक्षा करना संभव हो तो बाहर जाते समय बालों को कपड़े डालने से धक लें।



सर्दी में ज्यादा होता है डैड्रफ तो इन तरीकों से करें दूर

सर्दियों का मौसम कई लोगों को बहुत पसंद होता है लेकिन इस मौसम में बालों की खास देखभाल करने की ज़रूरत होती है। ऐसा इस्यलिए क्योंकि इन दिनों में नमी खोने की वजह से बालों में रुखापन आने लगता है और बालों से जुड़ी कई समस्याएं भी पनपने लगती हैं। इसी लिस्ट में एक नाम डैड्रफ का भी शामिल है। सर्दी के दिनों में डैड्रफ बड़ी समस्या है और इसकी परेशानी बहुत बुरी होती है। डैड्रफ के शिकायावाल कपड़ों को बोतल देकर गिरने लगते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कुछ ऐसी प्राकृतिक चीजें जो बिना बालों को नुकसान पहुंचाएँ। डैड्रफ की तकलीफ से निजात दिलाने में मददगार साबित हो। आज हम आपको उन्हीं चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं।

तेल- सर्दी के मौसम में बालों को स्वस्थ रखने और रुखापन से बचाने के लिए

तेल का मसाज करना चाहिए। जी दरअसल तेल ना लगाने से सिर की त्वचा रुखी और बेजान होने लगती है, और इससे रुखी आसानी से आपके बालों में आने लगती है। इससे बचने के लिए आप नारियल तेल, बादाम का तेल, तिल का तेल या फिर जैतून के तेल से मालिश कर सकते हैं। गम तेल ज्यादा फायदा करेगा।

-नींबू-

अगर आप रुखी से छुटकारे पाने के लिए लाखों जलन कर चुके हैं तो एक बार नींबू के रस का प्रयोग करें। नींबू में आप शहद मिलाकर बालों में लगा लें क्योंकि इससे बड़ा फायदा होता है। नींबू में प्राकृतिक अम्ल होता है, जो रुखी को आसानी से खत्म कर देता है और शहद रुखापन को दूर करने में मदद करता है।

-जैतून का तेल-

सिर की त्वचा से रुखापन हटाने के लिए जैतून का तेल सबसे लाभप्रद है। यह तेल आश्वर्यजनक रूप से रुखी और रुखापाले बालों के लिए फायदेमंद होता है। आप शहद के साथ भी इस तेल का प्रयोग कर सकते हैं।

व्यापार-समाचार

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे फिसला

मुंबई, 5 व्यापक अर्थिक आंकड़ों के कमज़ोर रहने के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया सोमवार को नए साल के पहले कारोबार दिवस पर 14 पैसे फिसलकर 74.43 पर पहुंच गया।

अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा निमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पिंगवट लेकर 74.35 पर खुल और

बाद में 14 पैसे लुढ़कर 74.43 पर आ गया वही छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.19 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 96.85 पर आ गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बताया कि देश का चालू खाता का घाटा सितंबर तिमाही में घटकर 9.6 अरब डॉलर या संकल रेट उत्पाद का 1.3 प्रतिशत रहा। इस बीच वैश्विक तेल बैंकांक ब्रेंट कर्डल बायदा 0.72 प्रतिशत बढ़कर 78.34 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

दिसंबर में 1.29 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन, नवंबर माह की तुलना में मामूली गिरावट

नईदिल्ली। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन लगातार छठे महीने 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। दिसंबर 2021 में 1.29 लाख करोड़ जीएसटी का जमा किया गया है। नवंबर में 1.31 लाख करोड़ नवंबर का जीएसटी संग्रह की गयी। इसको तुलना दिसंबर में मामूली गिरावट से की जाती है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक दिसंबर में कुल 1 लाख 29,780 करोड़ रुपये

का कलेक्शन हुआ। सेंट्रल जीएसटी 22 हजार 578 सरकार ने यह भी कहा है कि जीएसटी संग्रह में वृद्धि नकली जीएसटी बिल भुगतनकर्ताओं पर कारोबार के कारण हुई है। अंतिम तिमाही सकारात्मक रहने की उम्मीद है। करोड़, राज्य जीएसटी 28 हजार 658 करोड़ और समेकित जीएसटी 69 हजार 155 करोड़। इसके अलावा, उपकर के रूप में 9,389 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं।

दुनियाभर की 4000 उड़ानें रह

नईदिल्ली। दुनिया कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के चलते चौथी लहर की चपेट में आ चुकी है। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रोन का सबसे पहला मरीज मिला था। पिछले दिनों भारत सरकार में स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने कहा था कि 29 देशों में ओमिक्रोन के फैल चुका है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का तरकीब की ओमिक्रोन दुनिया के हर देश में पहुंच चुका है। बहरहाल, सक्रमण को रोकने दुनियाभर में सख्ती बरता रहा है।

बहीओमिक्रोन के असर के कारण रिकार्बोर को दूर करने से लगाऊ गण 4000 उड़ानें रह की गई। इनमें से आधे से अधिक उड़ानें सिर्फ अमेरिका में कैंसेर पहुंच हुए। ओमिक्रोन के बढ़ते प्रकारों से पूरी दुनिया में एक बार प्रियर में दहशत चैदा हो गई है। इयका असर हर और देखने को मिल रहा है और विमान उड़ान भी ओमिक्रोन के मौके पर हजारों उड़ानों के रहे होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, वहीं नए साल के जश्न पर भी ओमिक्रोन ने बुरा असर डाला। दुनियाभर में 4000 उड़ानें रह कर दी गईं। इनमें से आधे से अधिक उड़ानें अमेरिका की थीं।

संसेक्स 550 अंक उछला, न